

## नकली खाद का बड़ा रैकेट पकड़ा, 105 बोरे बरामद



Publish Date: Fri, 27 Nov 2020 12:50 AM (IST) Author: **Jagran**

जिले में नकली खाद का बड़ा रैकेट तोड़ने के लिए गुरुवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। जिला कृषि अधिकारी ने ग्राहक बनाकर ऑर्डर बुक कराया जिसके बाद नकली खाद लेकर पहुंचे वाहन चालक को पकड़ लिया। दो जगह से 105 बोरा नकली खाद बरामद की। इसके बाद सप्लाई करने वाले व्यापारी के कार्यालय व गोदाम पर भी छापा मारा गया।

जेएनएन, शाहजहांपुर : जिले में नकली खाद का बड़ा रैकेट तोड़ने के लिए गुरुवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। जिला कृषि अधिकारी ने ग्राहक बनाकर ऑर्डर बुक कराया, जिसके बाद नकली खाद लेकर पहुंचे वाहन चालक को पकड़ लिया। दो जगह से 105 बोरा नकली खाद बरामद की। इसके बाद सप्लाई करने वाले व्यापारी के कार्यालय व गोदाम पर भी छापा मारा गया।

पिछले महीने पुवायां तथा शहर के लोदीपुर में नकली खाद बरामद की गई थी। तब से प्रशासन इसकी सप्लाई करने वाले रैकेट की तलाश में लगा था। सुराग मिलने पर गुरुवार को जिला कृषि अधिकारी डा. सतीश चंद्र पाठक ने एक व्यक्ति से खाद का ऑर्डर कराया। दोपहर को तय समय व स्थल के मुताबिक कलान के बाराकला के पास 60 बोरी खाद लेकर पिकअप वाहन चालक पहुंचा। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर सभी बोरे बरामद कर लिए। अधिकारियों का कहना है कि इन बोरो में नकली खाद भरी हुई थी। चालक को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ हुई। तुरंत तिलहर की डभौरा क्रासिंग के पास दुकान पर छापा मारकर 45 बोरी नकली खाद बरामद की।

गोदाम पर पहुंची पुलिस

जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, बरामद नकली खाद शाहजहांपुर के हनुमतधाम के पास बने गोदाम से सप्लाई की गई थी। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को स्थिति से अवगत कराने के बाद शाम को अशोक गोयल के गोदाम पर छापा मारा गया। केरुगंज स्थित उनके कार्यालय पर भी टीम पहुंची और स्टॉक समेत तमाम अभिलेख कब्जे में ले लिए। कलान थानाध्यक्ष दिलीप सिंह ने विक्रेता के बेटे को हिरासत में ले लिया।

नकली खाद की सूचना मिलने पर गोपनीय जांच शुरू की गई थी। जिसके बाद माफिया तक पहुंचने की योजना बनाई गई। खाद के बोरे बरामद हुए हैं। साथ ही छापे में नकली खाद बनाने के पुख्ता सबूत मिले हैं। आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/shahjahanpur-105-bags-of-fake-manure-recovered-21104927.html>